

Devyani International Limited



Corporate Office: Plot No.18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana (India) • Tel.: +91-124-4566300, 4786000 E-mail: devyani@dil-rjcorp.com • Website: www.dil-rjcorp.com; CIN: L15135DL1991PLC046758

February 12, 2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Block G, C/1, Bandra Kurla

Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Email: cmlist@nse.co.in

Symbol: DEVYANI

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Email: corp.relations@bseindia.com

Security Code: 543330

Sub: Publication of extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2024

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2024 as published in the Newspapers.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully, for **Devyani International Limited**

Pankaj Virmani Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above













Telephone No. 044-42281100 email id : investor.relations@esab.co.in Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

SI	Particulars	Quarter ended December 31, 2024	Quarter ended September 30, 2024	Quarter ended December 31, 2023	Nine months ended December 31, 2024	Nine months ended December 31, 2023	Year ended March 31, 2024
NO		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	34,075	33,991	30,249	101,148	90,755	124,981
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	5,452	5,883	5,111	17,319	16,004	21,996
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	5,452	5,883	5,111	17,319	16,004	21,996
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	4,038	4,316	3,795	12,799	11,873	6,298
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.038	4.316	3,795	12,799	11,873	16.278
6	Equity Share Capital	1,539	1,539	1,539	1,539	,539	1,539
7	Other Equity	- 35	- 61	28	- 30		29.067
8	Earning Per Share (of Rs.10/each) (for continuing and discontinued operations)					William III	
	- Basic	26.24	28.04	24.66	83.16	77.15	105.90
	- Diluted	26.24	28.04	24.66	83.16	77.15	105.90

Note:

The above is an extract of the detailed Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The same would be available on the Company's website www.esabindia.com and on the website of the Stock Exchanges - BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Chennai February 12, 2025



"Shaping the world we imagine" Visit our website : http://www.esabindia.com For ESAB Jordia Limited Rohit Gambhir Managing Director



Registered Office: P.O. Hargaon, District Sitapur, Uttar Pradesh - 261 121 Phone (05862) 256220, Fax (05862) 256225, CIN: L15122UP2015PLC069632

Web-site: www.birla-sugar.com, E-mail: birlasugar@birla-sugar.com

Extract of the Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31 December 2024

Sr. No.	Particulars	Three months ended 31.12.2024	Nine months ended 31.12.2024	Corresponding Three months ended 31.12.2023 in the previous year
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	28,383.68	96,707.75	21,853.51
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,827.68	5,158.40	5,213.05
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,827.68	5,158.40	5,213.05
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,114.82	3,794.06	3,890.89
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,113.04	3,788.77	3,892.28
6	Equity Share Capital	1,409.16	1,409.16	1,409.16
7	Other Equity			
8	Earning per share (of ₹10/- each) (in ₹): Basic & Diluted	15.00 *	26.92 *	27.61 *

Not annualised.

Note:

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results of the Company are available on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of the Company at https://www.birla-sugar.com/Magadh-Stock-Exchange-Filings-/Financial-Results-Magadh. The same can also be accessed by scanning the QR code provided below:



For and on behalf of Board of Directors MAGADH SUGAR & ENERGY LIMITED Chandra Shekhar Nopany Chairperson DIN - 00014587

Place : Kolkata Date: 11th February, 2025



SANSERA

SANSERA ENGINEERING LIMITED

CIN: L34103KA1981PLC004542

Registered Address; Plant-7, No.143/A, Jigani Link Road, Bommasandra Industrial Area, Bengaluru - 560105 Phone: 080 27839081/82/83, Fax: 080 27839309, Email: rajesh.modi@sansera.in; Website: www.sansera.in

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024

SI.		Quarte	r ended	Nine mon	ths ended	Year ended
No.	Particulars	31-12-2024 (Unaudited)	31-12-2023 (Unaudited)	31-12-2024 (Unaudited)	31-12-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	7,277.99	7,126.38	22,350.99	20,655.87	28,114.32
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	705.24	666.21	2,107.08	1,912.98	2,557.91
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	705.24	666.21	2,107.08	1,912.98	2,557.91
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	559.17	483.73	1,576.68	1,410.84	1,875.49
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	544.84	484.23	1,550.56	1,412.78	1,868.87
6	Equity Share Capital	123.84	107.17	123.84	107.17	107.23
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					13,366.73
8	Earnings per share (of Rs. 2/- each)					
7.74	1.Basic:	9.19	8.99	27.80	26.24	34.83
	2.Diluted:	9.14	8.89	27.60	25.89	34.40

Note:

- The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly and nine months financial results for period ended 31 December 2024 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly and nine months financial results for period ended 31 December 2024 are available on the websites of the stock exchange(s) i.e., www.bseindia.com / www.nseindia.com, the website of the Company i.e., www.sansera.in and
- can also be viewed by scanning the QR code given below. Standalone Unaudited financial information of the Company pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Particulars	Quarte	Nine mon	Year ended		
	1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3	31-12-2023 (Unaudited)	PATRICIA STATE OF STATE OF	31-12-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)
Total Income from Operations	6,442.36	6,436.76	20,241.28	18,623.08	25,481.95
Profit before Tax	601.35	679.11	1,973.54	1,882.12	2,563.20
Profit after Tax	450.89	501.67	1,463.07	1,397.89	1,899.60

Scan QR code to view the full results in detail

For & on behalf of the Board of Directors

Date: 10 February 2025 Place: Bangalore



S. Sekhar Vasan Chairman and Managing Director

DIN: 00361245

Adfactors 621/25

Business Standard NEW DELHI | WEDNESDAY, 12 FEBRUARY 2025

PEARL GLOBAL Exceeding Expectations. Always

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC036849

Registered Office: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vlhar, New Delhi-110057 Corp. Off.: Pearl Tower, Plot No. 51, Sector-32,Institutional Area, Gurugram-122001, Haryana Tel: 0124-4651000; E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(Rs. in Lakh except earning per share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	102,845.92	330,548.30	70,675.41	257,632.25	346,851.98
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items*)	5,370.28	18,814.27	3,448.99	13,762.79	19,266.11
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	5,370.25	18,954.35	3,459.51	13,765.76	19,205.97
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	4,823.68	16,579.73	3,382.24	12,014,06	16,912.36
5	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	5,345.62	15,384.21	3,566.56	11,805.95	16,424.74
6	Equity Share Capital	2,296.16	2,296.16	2,178.05	2,178.05	2,179.18
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	84		8	(4)	78,023.55
8.	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (Not annualised)					
	Basic	12.52	40.07	8.25	28.47	40.26
	Diluted	12.38	38.86	8.19	28.33	40.05

(*) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind AS Rules. Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Period ended Financial Results (both Consolidated & Standalone) are available on the Company's website at www.pearlglobal.com, besides the websites of BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
- (2) The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of the Directors of company at their meetings held on February 11, 2025
- [3] Additional information on standalone financial results pursant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
(a)	Turnover	23,545.69	79,867.48	15,759.90	63,359.68	95,366.71
(b)	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)		3,324.34	54.70	1,725.83	3,047.69
(c)	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)		2,657.78	410.88	1,806.16	2,971.48



Place : Gurugram Dated : February 11, 2025

By order of the Board For Pearl Global Industries Limited

(Pallab Banerjee) Managing Director DIN 07193749

DEVYANI

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L15135DL1991PLC046758 Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Corporate office: Plot No-18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana Tel: +91-124-4566300, E-mail: companysecretary@dil-rjcorp.com, Website: www.dil-rjcorp.com



YOY Growth 40%

Net Revenue INR 12,944 Mn

YOY Growth 54%

Reported **EBITDA** INR 2,192 Mn

Year to date

YOY Growth 50%

(₹ in million, except per share data)

Statement of consolidated financial results for the quarter and nine months ended on 31 December 2024 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]



31 December 2024 (Unaudited) (Unaudited) Total revenue from operations 37,384.61 12,944,04 8.431.34 96.84 85.20 351.36 2 Profit/(loss) before exceptional items and tax 96.84 85.20 3 Profit/(loss) before tax 351.36 Net profit /(Loss) for the period (76.46)98.63 50.70 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 777.39 (377.63) 143.42 (face value of INR. 1/- each) 1.206.27 1,206.27 1,205.86 Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet Earnings Per Share (of INR, 1/- each) (not annualised for quarters) (0.00)* 80.0 (a) Basic 0.20 (b) Diluted (0.00)* 0.20 80.0




*Rounded off up to two decimal places See accompanying notes

- 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results flied with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.dil-rjcorp.com).
- 2. The previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation. The impact of such reclassifications/regroupings have been accordingly considered.
- 3. These standatione and consolidated financial results for the quarter and nine months ended on 31 December 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Devyani International Limited ("Dit." or "the Company") at their respective meetings held on 11 February 2025. The Statutory Auditors have conducted a limited review of these

The key standalone financial information of the Company is given below:













DIN: 00319476

For and on behalf of Board of Directors of **Devyani International Limited** Manish Dawar Director & CFO

Place : Gurugram Dated: 11 February 2025



Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AL Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 18 FEB 2025 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

DEHRA DUN - 24660001037011 24660001039527 24660001066775 246600022671001

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

> Sd/ Manage **AU Small Finance Bank Limited**



Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

N AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower's have been issued notices to pay the outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 18 FEB 2025 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation,

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

DELHI - DWARKA - 24660001070587 24660001371561 | NEW DELHI MALVIYA NAGAR - 24660001124437 24660001629747 | NEW DELHI RAJOURI GARDEN - 24660000962736 24660001884975 24660002068834 NOIDA - 24660001090219 24660002186302 | RDC - GHAZIABAD 246600017041761

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

> Manage **AU Small Finance Bank Limited**

एक्कारकार पुर, 11वीं तत, इमात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉक्ट, मीकाबी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110000 Indusind Bank 🚳 ई-बीटामी विकय सूचना का सूद्विपत्र

इंडसइंड के लिपिटेड इस्स आयोजित की जा की ई नीतामी के सार्वजिक विस्तान का संदर्भ देते हैं में 2007,200 को किनोच रहेडों के जीनी संस्थाल के पूछ संस्था 5 जीर डिटी संस्थाल के पूछ संस्था का पर करावित हुए था, जो यूनिवर्तत जिल्लोस आहरोट लिपिटेड के साते के अंतर्गत है, एका सुकता में काल संबंधि के वेवरण में यूनिए संख्या 48 को **यूनिट संख्या 5**8 के रूप में पढ़ा जाना है। एउनुसार, इस परिवर्तन के बवरण, नीतामी से तिषियों निम्न प्रदर्शित तालिका में चलितियत तिषियों तक बढ़ा दी गई हैं।

संपंतियों के विकल	आरखित मृत्य इंएमडी (आरखित मृत्य की 10%) बोली बृद्धि संवि	ई-गीलामी की तिथि एवं समय	बोली जगा करने की वरित्म दिग्नि	
पुनिवर्सल ट्रेंड टॉवर, सेवटर- 49, सोटना रोड,	क प्रका करोड़	11.03.2025 भी	10 03 2025	
टिवनी गांव गुड़गांव हरियाणा में स्थित प्रथम तल पर स्थित युनिट संख्या 122, 118, 119	T. 96.30 (CE)	क्षणा ११.00 से चेप १२.00	को दीप 1200 करे	
and of the grade and the last	K ton alle		10.00	

त्रज पर क्लिस मूनिट संख्या बद बद बर, 51, बस 50 (कुल क्लेक्सल 13,850 वर्ग पीट)

टे—रीलामी के अन्य सभी नियम व शर्त यथावत रहेगी। **電道車: 12/02/2025**

विशेष प्रचालन विभाग, एवजीएफली बैंक लि., प्रानंड फलोर, मुलाब नवन, 6 बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002 मांग सूचना – सरफेसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) के तहत

न्या पूजान — संस्कृत आवानस्य क्रिक्ट की स्वित 18(2) के सहित एतद्वार नीव व्यक्ति ऋषी, गारव्यक्षों) व गिरवीकर्ताक्षी) जो एवडीएकर्सी वैक से उनके द्वारा लिए गए ऋष सुविवारओं वे पुनर्शमातान से अस्पारत रहें हैं और जिनके खाते की 05.09.2022 को गीन - परकारिंग एस्सार्टर (एनपीए) के रूप में वणीकृत किया गया है को सुविधा किया जाता है। किसीच परिवारिक्षा के प्रतिवृद्धिकरण एव पुनर्शन्त लाभ प्रतिवृद्धि हिस प्रवर्धन अविनियम 2002 (सरफ्रेस्टी अविनियम की प्रतिवृद्धिकरण एव पुनर्शन्त लाभ प्रतिवृद्धि हिस प्रवर्धन अविनियम अविनियम की बारा 13(2) के अंतर्गत चन्ने अपने अविनियम की बारा 13(2) के अंतर्गत चन्ने अपने अविन प्रावर्ध परिवार्ध है अतः चन्हें इस सार्वजिनक सूचना के इस्ता स्वित विकास वार्यक है

ऋषी का नाम: 1, मैसर्स शिव शक्ति इंटरप्राइजेज इसके पार्टनर भानु प्रताप सिंह व श्रीमती राजन सिंह के द्वारा दुकान ने 94, हुडा माकिट, सेक्टर 03, बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा—121004 **पार्टनर / गार्रेटर / गिरवीकर्ता का नाम: 2. शानु प्रताप सिंह** पुत्र श्री इंडा वीर सिंह निवासी लगगढ, फरीदाबाद, हरियाणा–121004

पार्टनर / गारंटर का नाम : 3. श्रीमती रंजना सिंह पत्नी श्री उपेड़ सिंह निवासी म. न. 322सी

हरियाणा १२३११० **गारंटर / गिरवीकर्ता का नाम : 4. श्रीमती पूनीता सिंह** पत्नी श्री मानु प्रताप सिंह 2242 / ए हाउसिंग बोर्ड कॉलोगी, सेक्टर-३, बर्ठ करीदाबाद, हरियाणा-125004

ा, डाउसिंग बोर्ड, वारूडेडा, मलपुरा (295), रेवाड़ी, इंडस्ट्रियल एरिया, धारूडेडा

सभी वर्तमान और भावीं स्टॉक्स व बुक बेब्द्स पर विशेष प्रभार के द्वारा हाइपीबेक्शन	मैसर्स शिव शक्ति इंटरप्राइजेज	
अचल संपत्ति का वि	विदर्ग	THE PART WAS TO
अचल संपत्ति का विवरण	William III	गिरवीकर्ता
१. सचिति न .2242-ए / एमआई-जी प्रावसी मंजिल. संवर र - 3. ए प्रश्नी द्वावाद हरियाण किंवी होत्री दिवार निर्वाण किंवी होत्री दिवार हुए के एक लिए की वर्तवार में स्वरूप द्वारा लिए होत्र के स्वरूप द्वारा लिए हुए प्रथमिक भी हुआ की न .3284 अंतिरिवा बहित न . [जिक्ट म. 4 प्रेण न .336 के अनुसार 2 एजिस्ट्रा व तत्वम्य मुझ के कार्यालय में विधिवत प्रजीव्हत और इस . 1, प्रियन न .111, प्रावण न 3 से 38 पर चरणा की गई है ।	क्टर पुत्र श्री राजन लाल र शिंह के पक्ष में, दरलायेज 3.06.2006 घर नंप—	श्रीमती भानु प्रताप सिंह
2. इ.स.स्ट्रियस एस्टेट प्लीट न. 37, जिस्स स्टील्स से पीचे, रेथेन्यू यसार में 34/17/2(6 - 7), 24/1(1 - 7), 24/2(6 - 13), 25(0 - 0), 15/1(6 - 18), 5(8 - 0), 6(8 - 0), 14(8 - 0), 68/10/2(7 - 4), 16/10/2(1 - 3	47/14(8-0), 7(8-0), 1(0-11), 11/2/2/1(2-6),	श्रीमती पुनीता सिष्ट

कामा १५ राज्या १४ क्यांना पुण्यत न १६.२ क्यांनाठ गाउँचा, बल्लामाय इत्यांका, विकार क्षेत्र विनाकक १० ३२,२००७ माँ विज्ञ ता बांचु वर्षी क्ष्मियान विक्र वाज्या हाथ निकारितः। शीमारी पुण्या सिंहा पत्नी श्री थानुष्राचाप सिंह को पाएँ वे इस्ताकेन्द्र न. 13806 अधितियत वही न. । जिल्ह्यू न ० पेज न, 172 के अनुसार 01.02.2007 पर उप—ाजिस्ट्रार बस्लुमानड के कार्या तथ में विधिक्त क्षेत्रीकृत और इसवी अधिरिक्त प्रति बढ़ी नं 1. जिल्ह्य नं 14. पेज नं 85 से 86 पर यस्या की एनपीए तिथि : 05.09.2022 सूचना की तिथि : 06.01.2025 राशि बकरया (30.11.2024 तक) : रः 3.47.84.933.88 / — (रूपए तीन करोड सैतालीस लाख पीरासी हजार नी सौ तीवीस और छिमासट पैसे कंचल) और 01.12.2024 से अनुवंध पर अर्थान् 18 मंतियात प्रतिपंध की पर के अनुसार ब्याज / शुल्क 01.12.2024 है और जॉप सभी प्रेयिती

जकत न्यांनित ऋणी और / या गार्थटर(ऑ) / गिरवीकर्ताओं को एतद्वद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के गीतर वकामा शांश का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, असफल होने पर सर्फ़सी अधिनियम की धारा 13 की चंच-धारा (4) के तहत 60 दिनों की समापित के की कार्यवाही की जाएगी।

विनांक : 12.02.2025 एचडीएकसी बैंक लि. के लिए, प्राधिकृत अधिकारी

PEARL GLOBAL

exceeding Expectations., Always

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC036849

Registered Office.: C-17/I, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Corp. Off. Pearl Tower, Plot No. 51, Sector-32, Institutional Area, Gurugram-122001, Haryana Tel: 0124-4651000; E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(Rs. in Lakh except earning per share data)

			Maint East reacept earning per share a					
5. Vo.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)		
1.	Total income from operations	102,845.92	330,548.30	70,675.41	257,632.25	346,851.98		
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	5,370.28	18,814.27	3,448.99	13,762.79	19,266,11		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	5,370.25	18,954.35	3,459.51	13,765.76	19,205.97		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	4,823.68	16,579.73	3,382.24	12,014.06	16,912.36		
5	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	5,345.62	15,384.21	3,566.56	11,805.95	16,424.74		
6	Equity Share Capital	2,296.16	2,296.16	2,178.05	2,178,05	2,179.18		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.					78,023.55		
8,	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (Not annualised)	11025	CONVAME	12568	(85)(2)	Switgesses		
	Basic	12.52	40.07	8.25	28.47	40.26		
	Diluted	12.38	38.86	8.19	28.33	40.05		

(*) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind AS Rules. Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Period ended Financial Results (both Consolidated & Standalone) are available on the Company's website at www.pearlglobal.com, besides the websites of BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
- The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of the Directors of company at their meetings held on February 11, 2025
- Additional information on standalone financial results pursant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

IRs in Lakhsl

S, No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Period Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
(a)	Turnover	23,545.69	79,867.48	15,759.90	63,359.68	95,366.71
(b)	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	445.25	3,324.34	54.70	1,725.83	3,047.69
(c)	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)		2,657.78	410.88	1,806,16	2,971.48



Dated : February TI, 2025

By order of the Board For Pearl Clobal Industries Limited

(Pallab Banerjee) Managing Directo DIN 07193749

शवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : फ़िलालिक रफल फारनेंस बैंक लिपिटेट, 501, सेल्कन औरम, बसोला जिरिट्रक्ट सेंटर, वर्र दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110025 एवं शास्त्रा कार्यालय : निगला हंडन पार्क, जीएव-5, जर्नेज एन्क्लेव, वर्तिया खंड ३, इदिरापुरम, मानियानाद, उत्तर प्रदेश 201014

अचल सम्पतियों की बिक्री हेत् नीलामी सह विक्री की मार्वजीतक मुचना

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

Sdo

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ परित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 के तहत अचल आस्तियों की बिक्की हेतु खूली गीलापी बिक्की सुचना। एतद्वारा सामान्य रूप से वनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्नदार/अमानती को सुचित किया बाता है वि प्रतिभृत तेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्षित अचल सम्पत्ति, निस पर शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने रबमात्मक करूना कर लिया है, लेपिटनेट राज पाल सिंह (कर्जदार/बंधककर्ता/स्वर्णीय) ज्ञात/अज्ञात विधिक उत्तर्राधकारियों पूजा (विधवा) मर्वक (पूत्र) वदि जाबालिय है तो प्राकृतिक संरक्ष पुजा (मॉ) के माध्यम से दोनों निवासी: हाउस नंबर 595 होली वाला मोहल्ला, विलेज फोस्ट विपयान बुजुर्ग, जिला जी.मी. नगर उतर प्रदेश-201009, 2. स्वर्गी धन्तो देवी (सह-कर्जदार/स्वर्गीय) ज्ञात/अज्ञात विधिक उत्तराधिकारियो पूजा (विधवा) मर्चक (पुत्र) यदि नामालिग है तो प्राकृतिक संरक्षक पूजा (मां) के माध्य से दोनों निवासी: हाउस नेबर 595 होली वाला मोहल्ला, विलेज पोस्ट विपयाना बुजुर्ग, जिला जी.बी. नगर उत्तर प्रदेश-201009, 3. पूजा पत्नी स्वर्गीय राज पाल सिंह (जमानती) निवासी: हाउस नेबर 595 होली वाला मोहल्ला, विलेज पोस्ट विपयाना बुजुर्ग, जिला जी.बी. नगर उ.प्र-201009, 4. श्री रुविदर (जमानती निवासी मकान नंबर 175 करलका पूरी, पानियाबाद, उ.प. 201001 में फ़िवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिपिटेड के 12.03.2024 तक बकाया है, 56.74.000/ (रुपये रुप्पन लाख चौततर हजार मात्र) तथा न्यान एवं उसके पश्चत प्रचार की वसुली हेतु विक्री "जहीं है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुरु भी है वर्त है" आधार पर 28 फरवरी, 2025 को की नायेगी।

आरक्षित मूल्य रू. 21,35,000/- (रुपये इककीम लाख पैतीस हजार मात्र) तथा नमा धरोहर राशि आरक्षित गरिर का 10% अर्थात रू. 2,13,500/- (रुपये दो लास तेस हजार पाँच सी मात्र) होगी, बाद वाली रात्रि बैंक के पास 12-03-2025 को 5 बजे अप. तक नमा करती होगी निसके विवास निम्नालिसित हैं :

कर्जदाए रों)/जमानती(यों) के जाम	मौंग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना के अनुमार बकाया सीश	अवल सम्पतिषाँ का विवरण	आर्थक्षत मृत्य	जमा धरोहर गति (ज.ध.रा.)
 लेफिटनेट ताज पाल सित (कर्जदार/बंधककर्ता/स्वर्गीय) जात/अज्ञत विधिक उत्तर्शिकारियों पूजा (विधवा) मर्गक (पुत्र) गेर नामालिग है तो प्राकृतिक संरक्षक पूजा (क्रं) के माध्यम से दोनों निवासी खाउस नंबर 595 होती वाला मोतल्ला, विलेज पोस्ट चिमयाना बुजुर्ग, जिला जी.वी. नगर उत्तर प्रदेश 201009, 2. स्वर्गीय धन्ती देवी (सह कर्जवंदरस्वर्गीय) जात/अज्ञात विधिक उत्तर्शीयकारियों पूजा (विधवा) मर्गक (पुत्र) येर नामालिग है तो प्राकृतिक संरक्षक पूजा (क्रों के माध्यम से दोनों निवासी: छाउस नंबर 595 होली वाला मोतल्ला, विलेज पोस्ट विपयाना बुजुर्ग, जिला जी.वी. नगर उत्तर प्रदेश 201009, 3. पूजा पजी स्वर्गीय राज पाल सिंह (व्यवज्ञती) निवासी: हाउस नंबर 595 होली वाला मोतल्ला, विलेज पोस्ट विपयाना बुजुर्ग, जिला जी.वी. नगर उ.प201009, 4. औ रविदर (ज्यानती) निवासी मकान नंबर 175 कालका गढ़ी, पार्टिजगावार, उ.प. 201001 	12-03-2024 रू. 56,74,000/- (रुपये उप्पन लाख चीहतर हजार मात्र)	अचल संपति का समस्त भाग पता- प्रतिहेल्ड आवासीय प्लॉट, माप 190 वर्ग गज, क्षेत गंबर ४६३ के खाता गंबर 223 पर स्थित है, गांव- विपनया नुवृग्दे, परगना और तहस्सील — दादरी, जिला गीतमबुद्ध नगर, 5.५ बही गंबर 1 जिल्द संस्था 3207 पृष्ट संस्था 223/238 सीरियल नंबर 2810 उप- र्यवस्ट्रार सादरी जिला औ.बी. नगर के कार्यालय में दिगांक 14-02-2011 को स्वर्णीय राज पाल सिंह के नाम पर पंजीकृत।	रु. 21,35,000/ - (रुपये इवकीम लाख पैतीस हजार मात्र)	आरक्षित ग्रांज का 10% अर्थात रू 2,13,500/- (रुपये दो लाख वेस्त हजार पाँच भी मात्र)

प्रस्तव/ज्ञध्रा जमा करने की अन्तिम तिथि : 27 फरवरी, 2025 को 5.00 बने अपसस्य तक विक्री के विस्तृत निगम एवं शर्ती के लिए कुपमा शिवालिक स्पाल फाउनेंस बैंक, प्रतिपृत लेनदार की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction of bank properties.php में प्रावधानित सिंक देखें।

: 28 फरवरी, 2025 को 10:00 बर्व में 12:00 बर्व

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम एवं शर्ते (1) सम्पत्ति को किसी "जहाँ है वैसे हैं, जो कुछ भी है वहीं तथा आश्रवग्रित आधार" पर बिना किसी वारंटी तथा इंडेस्फिटी के की जा रही है।

(2) सम्पत्ति/दस्तावेचों का निरोधण चैंक के अधिकृत प्राधिकारी के साथ उपर्वुक्त तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।

(3) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शती सहित संविदा दस्तावेब/प्रभव कपर ठिल्लिक्षित बैंक के शाक्षा कार्यालय से क्वर्यालयी अवधि के दौरान किसी भी कार्यित्वम में व्यधिव प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संविद्यकारी को अपनी महरकप साँवदाएँ निर्धारित संविद्य प्रारूप में वैंक के अधिकार परिकारी के प्राप्त में मैंनर 🕏 .

संविदा मुहरचन्ट लिफाफे में बिस पर जैलामी सम्पत्ति हेतु संविदा उल्लिखित करते हुए तथा इसके साथ "विव्यल्तिक स्माल फाइनेंस बैंक लिपिटेड" के पदा में आहरित नीएड में देग दिमाण्ड द्वापट के रूप में ब.ध.स. (जो संविद्य सन्ति का 10% रोगा) बैंक के उपर्युक्त साम्रा कार्यात्म पर 27 फरवरी, 2025 को 5.00 बने अप. तक बमा करनी है। वो संविदाएँ भरी नहीं गयी हैं अथवा अन्तिम तिथि के परचात प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध संविदा माना वागेगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया वागेगा। प्रदत्त व ध रा पर कोई ज्यान देव नहीं होगा। संविदाकार द्वारा एक बार संविदा जमा करने के उपरान्त इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

बमा किया जाने वाला संविदा मूल्य आरथित मूल्य से अधिक होगा तथा संविदाकार रु. SO,000/- के गुणक में अपने प्रस्ताव बहा सकेंगे। सम्पत्ति अधिकृत प्राधिकारी द्वार निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

सफल संविधाकारों की विकाय मूल्य का 25% (ब.ध.स. सामित) तुरता या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस तक सिवालिक स्माल फावरेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित (6) नोपुरा में देय दिमाण्ड दाफ्ट के रूप में बमा करना होगा और सफल संविदाकार द्वारा विक्रण मूला की शेष राशि कम्पनी द्वारा विक्रण सुनिश्चित होने की तिथि से 15 दिने के भीतर बमा करनी होगी। इच्चूक संविद्यकारों द्वारा प्रदत्त व.ध.रा. तथा विक्रम मूल्य पर कोई ज्याव देश नहीं होगा। वदि सफल संविद्यकार विक्रम की शती का अनुपाल करने में असफल होता है वा कोई चुक करता है तो व.घ.च. अथवा 25% को बंगा, जैसा मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर ली बागेणी। र्बैक प्रस्तवित सम्पत्ति के परिप्रेश्य में किसी प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्रचलित कानून से किसी अनुमति/अनापति प्रमाणफ प्रापण करने अथवा बकाया पार्च/बिवली कं

देयताओं, सम्पत्ति कर अथवा अन्य प्रभारों, बदि कोई हो, जैसे अन्य बकायों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। सफल संविदाकार किसी विकास प्राधिकरण के लम्बित बकार्यों, खेंद कोई हो/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एकेन्सी के करों/यूटिलिटी किसी तथा 'विकाय प्रमाण

के पंजीकरण हेतू स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देव शुल्क सहित समस्त व्यर्शी का वहन करेगा। अधिकृत प्राधिकारी को कोई वा सभी प्रस्ताक/संकिदाएँ स्वीकार करने वा निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण नताए विक्रन को आस्वियत करने/निरस्त करने वा बिना किस

पर्व सचना के विक्रम को शतों में परिवर्तन करने का अधिकार एवं विशेषधिकार है।

एक बार लगाई गयी बोली को निरस्त या वापस नहीं किया वा सकता है।

जैलामी की तिथि तथा सीवदा खुलने की तिथि

अपने पूर्ण ज्ञान एवं सूचना के आधार पर बैंक को छोड़कर विक्रय की वा रही सम्पति पर किसी प्रकार के ऋगभार की बैंक को बानकारी नहीं है। इच्छूक पर्शों को अप स्वयं की मनुष्टि के लिए सम्पत्ति का अपना निजी आकलन कर लेज नाहिए। बैंक उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता/स्वाधित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई गारं नहीं लेता है या कोई प्रतिनिधान नहीं करता है। किसी अन्य सूचना के लिए अधिकृत प्राधिकारी अपर्युक्त सम्पत्ति के परिप्रेश्य में किसी प्रभार, प्रतपाधिकार, ऋगभार, सम्पत्ति कर मा सरकारी अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य नकामा के लिए उत्तरदामी नहीं होगी। एतहारा कर्जदार(चें)/बंधकवर्ता(ओं)/जमानती(चें) की विक्रम के सम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है और वे विक्रण के नियम एवं शतों के विवरण के अनुसार रूपर वर्णित अवल सम्पत्ति की खरीद हेतू इच्छून केता/सरीददार ला सकते हैं।

अवल सम्पत्ति का विक्रण उच्छतम बोलीदाता को किया जाणेगा। किन्तु यदि अधोहस्ताधरी को आवश्यक प्रतीत हो तो उन्हें पारस्परिक बोली की अनुमति देने का निराध विशेषधिकार है।

बैंक सम्पत्ति के किसी ऐसे दायित्वों के लिए उनस्त्रणी नहीं है वो कर्बदाता कम्पनी के संजान में नहीं है।

कर्जवार(रीं)/बंधककर्ता(ओ)/जमानती(ओ) को एतद्वरा पूर्ण रूप से बकाबा अदा करने के लिए तथा इस सूचना की तिथि से पंद्रज दिनों के भीतर अखतन ज्याव एवं रूप (14) सहित ककाये का युगतान करने के लिए प्रतिपृत हित (प्रवर्तन) निगम, 2002 के निगम 8(6) के तहत 15 दिवसीन वैधानिक सूचना दी जाती है निसमें असफल होने प प्रतिष्त आस्ति का विक्रय उपर्युक्त नियम एवं कर्ती के अनुसार किया वायेगा। यदि विक्रय सूनना के अंग्रेजी तथा मातृभाषा के समाचार-पत्रों में प्रकाशन के बीच को असंगति पाणी जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र को मातृभाषा के समाचार पत्र की तुलना में वरीनता दी जागेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जागेगा इस प्रका कोई अस्पष्टता दूर हो जानेगी। यदि कर्नदार/जमानती/बंधककर्ता विक्रण की तिथि से पूर्व कम्पनी के सम्पूर्ण बकाये का भूगतान कर देता है तो नीलामी रोक दी जायेगी किन्तु ऐसे मामलों में सूचना में बकाया राशि पर ऋण रस्तानेजों के अनुसार क्षाप्रयोज्य मानी ज्याब वसूल किया जावेगा तथा इस वसूलो तक आकस्मिक ज्यय, लागतें आवि

बकाया तथा देव होंगी। अधिकृत प्रधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी और प्रश्नविस्न रहित है। यह माना वायेषा कि संविदा बमा करने वाले सभी संविदाकार ने निक्री के निषम एवं शतों को (15)

पढ़ और समझ लिया है तथा उसे नैधा हुआ है। अधिक विवरण के लिए संघावित संविदाकार श्री सिद्धार्थ सिन्हा- संपर्क च. 9811864937 से सम्पर्क कर सकते हैं।

।. कृपमा ध्यान दें कि प्रतिभृत ऋगदात, बैंक सभी कर्जदारी/सह-कर्जदारी/गारंटरी/बंधककर्ताओं को उनके परे पर POST द्वारा विक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। यदि किसी पथ को यह प्राप्त नहीं हुआ है, तो बिच्ची नोटिस के इस प्रकाशन को सेवा का प्रतिस्थापित तरीका माना जाए।

कर्जदार/सह-कर्जदारी/जमानतिर्वी/जंधककर्ताओं को एतदाय वह भी सचित किया जाता है कि ने इस सचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर जपनी भरेल वस्तरी, यदि कोई है जो उपर्युक्त परिसर में/बैंक के संस्थाप में है, पूर्व अनुभति लेकर निकाल लें, जिसमें असफल रहने पर इस क्लिय में बैंक का कोई दाधित्व/उत्तरदाधिता नहीं होगा और इसे कर्वदार/सह-कर्वदारी/बमानतिर्गो/बंधककर्वाओं के बोखिम पर निस्तारित कर दिया वायेगा और बकायों के प्रति विक्री कार्यवाही में समायोजित कर दिया वायेगा।

नदि किसी भी कारण में नीलामी असफल हो जाती है तो कम्पनी सर्फसी अधिनियम, 2002 के तहत मैंडेटेड प्रावधानों के अनुसार निजी सन्धि के माध्यम में उपर्युक्त बंधव सम्पत्ति/वों को बेचने के लिए स्वतन्त्र होगी।

र./- प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्थाल फाइनेस बैंक लिमिटे विश्वि : 10.02.2025, स्थान : नोएस

DEVYANI

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L15135DL1991PLC046758 Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. Corporate office: Plot No-18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana Tel: +91-124-4566300, E-mail: companysecretary@dil-rjcorp.com, Website: www.dil-rjcorp.com



YOY Growth 40%

Net Revenue INR 12,944

YOY Growth 54%

Reported **EBITDA** INR 2,192

YOY Growth 50%

(₹ in million, except per share data)

Three months

Statement of consolidated financial results for the quarter and nine months ended on 31 December 2024 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]




Year to date Three months (Unaudited) 31 December 2023 31 December 2024 (Unaudited) (Unaudited) Total revenue from operations 12,944.04 37,384.61 8,431.34 Profit/(loss) before exceptional items and tax 85.20 351.36 96.84 Profit/(loss) before tax 85.20 351.36 96.84 Net profit /(Loss) for the period (76.46)98.63 50.70 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) (377.63)777.39 143.42 and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital (face value of INR, 1/- each) 1,206.27 1,206.27 1,205.86 Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet Earnings Per Share (of INR, 1/- each) (not annualised for quarters) (0.00)0.20 0.08 (a) Basic (b) Diluted (0.00)80.0



*Rounded off up to two decimal places See accompanying notes 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.dil-rjcorp.com). The previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current

period/year presentation. The impact of such reclassifications/regroupings have been accordingly considered. These standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended on 31 December 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Devyani International Limited ("DIL" or "the Company") at their respective meetings held on 11 February 2025. The Statutory Auditors have conducted a limited review of these















(₹ in million)

Devyani International Limited Whole time Director & CFO DIN: 00319476

For and on behalf of Board of Directors of

Place : Gurugram Dated: 11 February 2025